



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 अग्रहायण 1939 (श10)  
(सं0 पटना 1203) पटना, बृहस्पतिवार, 21 दिसम्बर 2017

---

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

20 दिसम्बर 2017

जी0 एस0 आर0 10 दिनांक 21 दिसम्बर 2017— भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 — 3348(अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 तथा का0आ0—3443(अ) दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2016 तथा चीनी (नियंत्रण) आदेश-1966 के खण्ड-5 के संदर्भ में राज्यपाल, बिहार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0— 9, दिनांक— 19 अप्रैल 1984 के द्वारा प्रकाशित बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन पत्र एकीकरण) आदेश-1984 के भाग-3 के अन्तर्गत व्यापारिक वस्तुओं के लिए संचयन सीमा के लिए निर्गत अधिसूचना संख्या जी0एस0आर0-49 दिनांक 17 अक्टूबर, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

#### संशोधन

चीनी का कोई भी व्यापारी किसी भी समय स्टॉक में निर्वार्त कड़ाह चीनी (वैक्यूम पैन शुगर) या खण्डसारी (खुला कड़ाह चीनी) का कोई स्टॉक ऐसे स्टॉक के प्राप्त करने की तारीख से तीस दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं रखेगा और किसी भी समय स्टॉक में नीचे उल्लिखित मात्रा से अधिक चीनी/खंडसारी नहीं रखेगा —

- |     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
| (क) | थोक व्यापारी   | — 5000 (पाँच हजार) क्विंटल; |
| (ख) | खुदरा व्यापारी | — 100 (एक सौ) क्विंटल;      |

परन्तु इस आदेश की कोई बात निम्नलिखित द्वारा धारण या रखे गये चीनी/खंडसारी के स्टॉक में लागू नहीं होगी —

- सरकारी मद्दे स्टॉक; या
- राज्य सरकार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित अनुज्ञप्त व्यापारी द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए रखा गया स्टॉक; या

- (iii) भारतीय खाद्य निगम/बिहार राज्य खाद्य एवं असेैनिक आपूर्ति निगम द्वारा रखा गया स्टॉक ।  
 2. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।  
 3. यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

(सं० प्र०४/आ-०१/२००९ (खंड-१)-६४८६)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
 चन्द्रशेखर,  
 सरकार के अपर सचिव।

*The 20<sup>th</sup> December 2017*

GSR 10 Dated The 21<sup>st</sup> December 2017— In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, published under order S.O. 3348(E) dated 28<sup>th</sup> October 2016 and S.O.-3443(E) dated 27<sup>th</sup> October 2017 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order 2016 and clause (5) of the Sugar (control) Order, 1966 and with prior concurrence of Government of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Amendment in the order issued vide Notification no. GSR 49 dated 17<sup>th</sup> October 1985 for the storage limit of trade articles under clause (3) of Bihar Trade Articles (Licensing Unification) Order 1984, published by Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna under order GSR - 9, dated 19<sup>th</sup> April 1984, Namely :-

#### **Amendment**

No dealer of sugar shall hold any stock of vacuum pan sugar or khandsari (open pan sugar) for a period exceeding thirty days from the date of receipt by him of such stock and shall not keep in stock at any time vacuum pan sugar/khandsari in excess of the quantities as follows -

- |     |                  |   |                                |
|-----|------------------|---|--------------------------------|
| (a) | Wholesale dealer | - | 5000 (Five thousand) Quintals; |
| (b) | Retail dealer    | - | 100 (One hundred) Quintals;    |

Provided that nothing contained in this order shall apply to the holding or keeping of stock of sugar/khandsari -

- (i) On Government account; or
- (ii) By the licensed dealers nominated by the State Government or an officer authorised by it to hold stock for distribution through fair price shops; or
- (iii) By the Food Corporation of India/Bihar State Food and Civil Supplies Corporation, stock;

2. Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed amended upto this extent.

3. This notification shall come into force at once.

(No. Pra-04-Aa-01/2009-Khand-I-6486)

By order of the Governor of Bihar,  
 CHANDRASHEKHAR,  
 Addl. Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
 बिहार गजट (असाधारण) 1203-571+200-डी०टी०पी०।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>